



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II--Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 422] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 11, 1978/भाद्र 20, 1900
No. 422] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11, 1978/BIADRA 20, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विस्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

शेयर बाजार प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1978

का०आ० 553(अ).—केन्द्रीय सरकार, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद (जिसे हममें
हमके पश्चात् एक्सचेंज कहा गया है) द्वारा प्रतिभूति संधिदा (विनियमन) नियम, 1957 के
नियम 7 के साथ पठित प्रतिभूति संधिदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42)
की धारा 3 के अन्तर्गत मान्यता के नवीकरण के लिए दिए गए आवेदन पत्र पर विचार करने
और इस बात में संतुष्ट होने के बाद कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी
होगा, उक्त अधिनियम की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस
एक्सचेंज को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन एक्सचेंज की मान्यता 29 सितम्बर, 1978
में शूक्त होने वाली और 28 सितम्बर, 1983 के साथ समाप्त होने वाली 5 वर्ष की और अधि

के लिए प्रतिभूतियों के संविदाओं के संबन्ध में नीचे दी गई शर्तों और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन जो बाद में निर्धारित की जाएंगी अथवा लागू की जाएंगी, मान्यता प्रदान करती है।

शर्तें

(1) किसी भी व्यक्ति को लगातार तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक्सचेंज का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष बने रहने की अनुमति नहीं होगी।

(2) हालांकि वर्तमान सदस्यों को, चाहे उनकी शैक्षिक अर्हताएं, कुछ भी हो, मदस्य बने रहने दिया जाएगा, लेकिन नए व्यक्तियों को एक्सचेंज की मदस्यता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि उन्होंने मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा पास कर रखी हो।

2. एक्सचेंज की संस्था के अनुच्छेद में उक्त प्रयोजन के लिए यथार्थापन्न लेकिन हर हालत में 29 सितम्बर, 1978 से एक वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर संशोधन कर दिया जाएगा।

[सं० एफ० 1/23/एस० ई०/78]

ए० बी० गणेशन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

Stock Exchange Division

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 1978

S.O. 553(E).—The Central Government having considered the application for renewal of recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) read with rule 7 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, by the Hyderabad Stock Exchange Ltd., Hyderabad (hereinafter referred to as the Exchange) and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, recognition to the Exchange, under section 4 of the said Act, for a further period of five years commencing on the 29th September, 1978, and ending with the 28th September, 1983, in respect of contracts in securities, subject to the conditions stated herein below and such other conditions as may be prescribed or imposed hereafter :

CONDITIONS

- (1) No person shall be allowed to continue as President or Vice-President of the Exchange for a period of more than three consecutive years;
 - (2) While the existing members may be allowed to continue irrespective of their educational qualifications the new entrants shall be required to have passed matriculation or an equivalent examination for acquiring the membership of the Exchange.
2. The Articles of Association of the Exchange shall be amended for the purpose aforesaid as early as possible but in no case later than a period of one year from 29th September, 1978.

[No. F. 1/23/SE/78]

A. V. GANESAN, Joint Secy.